

एक नवरत्न कम्पनी

A Navratna Company

पंजीकृत कार्यालय : इंजीनियर्स इंडिया भवन, 1, भीकाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110 066 भारत Regd. Office: Engineers India Bhawan, 1, Bhikaiji Cama Place, New Delhi-110 066 INDIA

ईमेल/e-mail: company.secretary@eil.co.in, दूरआष /Phone: 011-26762855/2580

कंपनी सचिवालय/ COMPANY SECRETARIAT

No. Secy/906/9/10

26.08.2021

The BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers	The National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, 5th Floor
Dalal Street, Fort	Bandra Kurla Complex
Mumbai - 400 023	Bandra (East), Mumbai-400051
Scrip Code-532178	Symbol-ENGINERSIN

Newspaper Advertisement -Disclosure under Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III Part A of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copy of newspaper advertisement published in compliance with Ministry of Corporate Affairs General Circular No. 02/2021 dated 13th January, 2021 read with Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020 intimating that 56th Annual General Meeting of the Company will be held on Wednesday, 29th September, 2021 at 3.00 p.m. (IST) through video conferencing /Other Audio Visual Means.

The above is for your kind information & records please.

Thanking you,

Very truly yours,

Narendra Kumar Compliance Officer

Encl: as above



उत्कृष्टता का आधार - हमारे कर्मी Delivering Excellence Through People पंजीकृत कार्यालय / Regd. Office - फोन / Phone : +91-11-26762121 (EPABX)

CIN: L74899DL1965GOI004352 सर्व शिक्षा अभियान









MEGH MAYUR INFRA LIMITED (Formerly Poddar Infrastructure Limited and before that known as Transoceanic Properties Limited) (CIN: L51900MH1981PLC025693)

Read Office: MHB-11, A-302, SARVODAYA CO- OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD. SERVICE ROAD, KHERNAGAR, BANDRA (E) MH 400051 IN Tel: +91 022-28993841 .E-mail: grievances@meghmayur.com . Website: www.meghmayurinfra.com NOTICE TO SHAREHOLDERS

Notice is hereby given that 40th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held at the Registered Office of the Company at MHB-11, A-302, SARVODAYA CO- OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD, SERVICE ROAD, KHERNAGAR, BANDRA (E) MH 400051 IN on Saturday, 18th September, 2021 at 11.30 a.m. to transact the business as set out in the Notice of AGM which along with Annual Report 2020-21 has been sent electronically to those members who have registered their email addresses with Company/Depository Participants and for other members, physically at their registered addresses. Any Member desirous of receiving a physical copy of the Annual Report, is requested to contact the Company. 40th Annual Report is also available on Company's website at www.meghmayurinfra.com and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com

The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, September 11, 2021 to Saturday, September 18, 2021 (both days inclusive) for the purpose of AGM to the members whose names appear in the Register of Members as on Saturday, September 11, 2021.

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 ("Act") and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("LODR"), the Company is offering e-voting facility to its Members in respect of the business to be transacted at its 40th

The Company has engaged services of its Registrar and Transfer Agents 'Satellite Corporate Services Pvt. Ltd.' as the authorized agency to provide the e-voting facility to its Members. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means and poll is Friday, September 10, 2021. The communication relating to remote e-voting containing User Id and Password Pin along with a copy of the Notice convening the Meeting has been dispatched to

Members holding shares either in physical form or in dematerialized form may cast their vote

electronically for which remote e-voting will commence from 9.00 a.m. (IST) on Wednesday,

September 15, 2021 up to 5.00 p.m. (IST) on Friday, September 17, 2021. Remote e-voting shall not be allowed beyond the said time and dates. Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after dispatch of notice and holding shares as of cut-off date i.e. September 10, 2021 may obtain login ID and password by sending an email to evoting@nsdl.co.in by mentioning his Folio No./DP ID and Client ID. However, if he is already registered with NSDL for remote e-voting then he can use his existing user ID and password for casting his vote. Pursuant to Section 107 of the Act, voting through polling paper shall also be made available

to those Members who attend the AGM and have not cast their vote by e-voting. A member may participate in the meeting even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at AGM.

In case of any query, you may refer Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for Shareholders available at the Downloads section of "https://www.evoting.nsdl.com" For MEGH MAYUR INFRA LIMITED or on Phone No: 022-24994890

Place: Surat Date: 25th August, 2021 **Managing Director**



KALYAN JEWELLERS INDIA LIMITED

Mitul Shah

INFORMATION REGARDING 13th ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM)

1. Notice is hereby given that the 13th Annual General Meeting (AGM) of

the Company is scheduled to be held on Thursday, September 23, 2021 at 10.30 AM through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM) incompliance with Circular No. 2/2021 dated January 13, 2021 and Circular No.20/2020 dated May 5, 2020 and all other applicable laws and circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), Government of India and Securities and Exchange Board of India (SEBI), to transact the Ordinary and Special Businesses set out in the Notice of 13th AGM.

2. In compliance with the above circulars, electronic copies of the Notice of the AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2020-2021 will be sent to all the shareholders whose e-mail addresses are registered with the Company/Registrar and Transfer Agents (RTA) or Depository Participant (Stock Broker). The Notice of the AGM along with Annual Report for the Financial Year 2020-2021, will be made available on the websites of the Company at www.kalyanjewellers.net and the Stock Exchanges, BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited and e-voting agency, NSDL.

3. Manner of Casting vote through remote E-Voting - Detailed process and manner for attending the AGM and casting vote through remote e-voting and e-voting at AGM for Members holding shares in dematerialised mode, physical mode and for Members who have not registered their email address is being provided in the Notes to the AGM Notice.

4. Manner of Registering / updating email address - Members of the Company holding equity shares of the Company in physical form and who have not registered their e-mail address may get their email address registered with the Company at cs@kalyanjewellers.net by providing a request letter duly signed by the shareholder providing details such as Name, Folio Number, Certificate Number, PAN, Mobile Number and e-mail address. Members holding shares in Demat Mode are requested to register their e-mail address and mobile number, in respect of Demat holdings with the respective Depository Participants by following the procedure prescribed by the concerned Depository Participants.

5. Notice of the 13th AGM and Annual Report for FY 2020-2021 will be sent to the shareholders in accordance with the applicable laws only in electronic mode.

Place: Thrissur Date: August 26, 2021 For Kalyan Jewellers India Limited Jishnu RG

Company Secretary Kalyan Jewellers India Limited

CIN-U36911KL2009PLC024641 Registered Office -TC-32/204/2, Sitaram Mill Road, Punkunnam, Thrissur, Kerala - 680 002 Web: www.kalyanjewellers.net | Email: cs@kalyanjewellers.net



ALPHALOGIC TECHSYS LIMITED CIN: L72501PN2018PLC180757

Registered office: 405, Pride Icon, Kharadi, Pune- 411014 (MH) Email: info@alphalogiclimited.com, Web: www.alphalogicinc.com NOTICE OF POSTAL BALLOT/E-VOTING

Notice is hereby given that pursuant to provisions of Section 108 and Section 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rule 20 and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("the Rules") read with General Circular No.14/2020 dated April 08, 2020, General Circular No.17/2020 dated April 13, 2020 and General Circular No.39/2020 dated December 31, 2020 issued by Ministry of Corporate Affairs ("the MCA Circulars") in relation to "Clarification on passing ordinary and special resolution by Companies under Companies Act, 2013 and rules made there under on account of the threat posed by COVID-19" for holding general meeting/ conducting postal ballot through e-voting and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("the Listing Regulations"), (including any statutory modifications, amendments or re-enactments thereof, for the time being in force) the Resolutions appended below are proposed for seeking approval of the Members of the Company for the business set out hereunder through Poetal Ballot/remote e-voting

SI. No.	Resolution for seeking approvals of Shareholders	Resolution
1	Sub division of equity shares from the face value of Rs. 10/- Per share to Rs. 5/- per share.	Ordinary Resolution
2	Alteration of the Capital Clause in the Memorandum of Association due to Sub division of Shares.	Ordinary Resolution
3	Migration of the Company's listed Equity Shares from Start-up Segment of SME Platform of BSE Limited to Main Board of BSE Limited	Special Resolution
4	Migration of the Company's listed Equity Shares from Start-up Segment of SME Platform of BSE Limited to Main Board of NSE Limited.	Special Resolution

Due to COVID-19 Pandemic and in compliance with the aforesaid MCA Circulars hard copy of Postal Ballot Notice along with Postal Ballot Forms and pre-paid business reply envelopes are not being sent to the Members for this Postal Ballot. Accordingly, the communication of the assent and dissent of the Members would take place through remote e-voting system only

Members who have not registered/updated their e-mail ids are requested to register/update the same with their respective Depository Participant(s) for sending future communication(s) in electronic form.

The said Postal Ballot Notice will also be available on Company's Website www.alphalogicinc.com, website of BSE Limited at www.bseindia.com and

The Company has engaged National Securities Depository Limited (NSDL) to provide remote e-voting facility to the Members, to exercise their right to vote by electronic means on the Resolutions set forth in the Notice. The remote

e-voting period shall commence on Wednesday, August 25, 2021 at 9.00 a.m. (IST) and end on Thursday, September 23, 2021 at 5.00 p.m. (IST), and the remote e-voting facility shall be disabled by NSDL thereafter. The Members of the Company whose names appear in the List of Beneficial Owners furnished by NSDL and CDSL as on Friday, August 20, 2021 will be entitled to cast their vote through remote e-voting only. A person who is not a Member on the cut-off date should treat the Postal Ballot Notice for information purpose only. The result of the Postal Ballot through remote e-voting will be declared by

the Whole-time Director of the Company on Saturday, September 25, 2021 at the Registered Office of the Company. The said result along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the website of the Company i.e www.alphalogicinc.com and on the website of NSDL i.e. www.evoting.nsdl.com immediately after the declaration of result by the Whole-time Director. The results shall also be immediately forwarded to BSE Limited. In case you have any queries or issues regarding Postal Ballot including remote e-voting, members may contact Mr. Prashal Pandey, Company Secretary on telephone no. 727-6701155 or e-mail id: info@alphalogiclimited.com or contact NSDL help line number 1800-222-990 or send a request to Ms. Soni Singh at evoting@nsdl.co.in.

For Alphalogic Techsys Limited Anshu Goel

MD

The Indian Express.

For the Indian Intelligent.



Book classified ads at your nearest Express

Group's authorised Classified Ad Depots

22090987, 22235837, PREET VIHAR: AD BRIDGE COMMU-NICATION, Ph.: 9810029747, 42421234, 22017210, SHAKARPUR: PARICHAY ADVERTISING & MARKETING. Ph.: 9350309890, 22519890, 22549890

WEST

25530307, KAROL BAGH (REGHARPURA): K R ADVERTIS-ERS, Ph.: 9810316618, 9310316618, 41547697, KARAM-PURA: GMJ ADVERTISING & MARKETING PVT. LTD., Ph. 9310333777, 9211333777, 9810883377, **NEW MOTI** NAGAR: MITTAL ADVERTISING, Ph.: 25178183, 9810538183, 9555945923, MOTI NAGAR: UMA ADVER-TISERS, Ph.: 9312272149, 8800276797, RAMESH NAGAR POSITIVE ADS, Ph.: 9891195327, 9310006777, 65418908 TILAK NAGAR: SHIVA ADVERTISERS, Ph.: 9891461543, 25980670, 20518836, **VIKAS PURI**: AAKAR ADVT. MEDIA Ph.: 9810401352, 9015907873, 9268796133

CENTRAL

ING, Ph.: 9810145272, 23912577, 23928577, CONNAUGHT PLACE: HARI OM ADVERTISING COMPANY Ph.: 9811555181, 43751196

NURTH

KINGWAY CAMP : SHAGUN ADVERTISING, Ph.: 9818505505, 27458589, PATEL CHEST (OPP. MORRIS NAGAR POLICE STATION): MAHAN ADVERTISING & MAR-KETING, Ph.: 9350304609, 7042590693, PITAMPURA (PRASHANT VIHAR) : PAAVAN ADVERTISER Ph.: 9311564460, 9311288839, 47057929

SUUTH

9811602901, 65181100, 26301008, **KALKAJI** : ADWIN ADVERTISING, Ph.: 9811111825, 41605556, 26462690, MALVIYA NAGAR: POOJA ADVERTISING & MARKETING SERVICE, Ph.: 9891081700, 24331091, 46568866, YUSUF SARAI: TANEJA ADVERTISEMENT & MARKETING Ph.: 9810843218, 26561814, 26510090

FARIDABAD (NEELAM FLYOVER) : AID TIME (INDIA) ADVERTISING, Ph.: 9811195834, 0129-2412798, 2434654, FARIDABAD (NIT, KALYAN SINGH CHOWK) : PULSE ADVERTISING, Ph.: 9818078183, 9811502088, 0129-4166498, FARIDABAD: SURAJ ADVERTISING & MARKET-ING, Ph.: 9810680954, 9953526681, GURGAON: SAMBOD-HI MEDIA PVT. LTD., Ph.: 0124-4065447, 9711277174 9910633399, GURGAON: AD MEDIA ADVERTISING & PR. Ph.: 9873804580, NOIDA (SEC. 29): RDX ADVERTISING, Ph.: 9899268321, 0120-4315917, NOIDA (SEC. 65): SRI SAI MEDIA, Ph.: 0120-4216117, NOIDA (SEC. 58): JAI LAKSHMI ADVERTISERS, Ph.: 9873807457, 9911911719 GHAZIABAD (HAPUR ROAD TIRAHA, NR GURUDWARA): TIRUPATI BALAJI ADVERTISING & MARKETING, Ph.: 9818373200, 8130640000, 0120-4561000

EDUCATION (IAS & PINT ACADEMIES)

For CAD enquiries please contact : ROHIT JOSHI 9818505947, ABHINAV GUPTA 9910035901 For booking classified ads, please contact 011-23702148, 0120-6651215, E-mail: delhi.classifieds@expressindia.com



E-Tenders are invited from the interested parties for appointment of Contractor for providing outsourced manpower like Quality Control Assistants, Data Entry Operators, Casual Workers, Multi Purpose Helpers, Electricians, Hindi Translators, Stenographers, Drivers, etc. to work in Hyderabad Region comprising of Andhra Pradesh & Telangana States. Complete details are available on www.cewacor.nic.in, www.tenderwizard.in/ cewacor, www.tenderhome.com and www.eprocure.gov.in



CONCOR invites E-Tender in single Packet System of tendering for the following S&T work:-Tender No. CON/EP/MMLP-Swarupganj/S&T work/2021

	Design, Supply, Installation, testing and commissioning of Indoor and Outdoo Signalling & Telecommunication work of Interlocking system for Track work as pe DFCCIL specification in connection with development of RTH, Swarupganj (Rajasthan)	
Estimated Cos	ß	Rs. 873.29 lakhs
Estimated Cos Completion Pe Earnest Money	riod	06 (Six) Months
Earnest Money	Deposit	NIL (bid security declaration to be submitted)

Cost of Tender Document (Non-refundable) Nil Tender Processing Fee (Non-refundable) Rs. 4,720/- (inclusive all taxes & duties) through e-payment. Date of Sale of Tender (Online) 26.08.2021 (11:00 hrs.) to 16.09.2021 (upto 17:00 hrs.) 18.09.2021 upto 17:00 hrs. Date & Time of Submission of Tender

Date & Time of Opening of Tender 20.09.2021 at 11:30 hrs. For financial eligibility criteria, experience with respect to similar nature of work, etc. please refer to detailed tender notice available on website www.concorindia.com, but the complete tender document can be downloaded from website www.tenderwizard.com/CCIL only. Further, Corrigendum Addendum to this Tender, if any, will be published on website www.concorindia.com www.tenderwizard.com/CCIL and Central Procurement Portal (CPP) only. Newspaper press advertisement shall not be issued for the same. ED(P&S, Area-II) Phone No.: 011- 41222500

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD. (भारत सरकार का नवरान उपक्रम - A Navratna Govt. of India Undertaking) Open Tender Notice (e-Tendering mode only) Tender No. CON/T/BLCS/e54172/2021

Bid Reference

Online Open E-bids are invited through two packet Open tendering system from the

CON/T/BLCS/e54172/2021

indigenous suppliers for the Manufacture and Supply of 36 BLCS Rakes i.e. 1620 nos. (i.e. 648 nos. BLCSA Wagon and 972 nos. BLCSB Wagon) Broad Gauge BOGIE CONTAINER FLAT WAGON TYPE "BLCS (A&B-CAR)" in accordance with RDSO's Particular Specification no. WD-01-BLCS (A & B Car)-2018 or its latest.

1	Tendered Quantity	1620 nos. (i.e. 648 nos. BLCSA Wagon and 972 nos. BLCSB Wagon) Broad Gauge BOGIE CONTAINER FLAT WAGON TYPE "BLCS (A&B-CAR)"
2	Bid Security (Earnest Money) Deposit	Bid Security Declaration as per clause 3 of section II (Refer Detailed Tender Document)
3	Cost of Document (Non refundable)	₹ 1,000 through online payment gateway to CONCOR
4	Tender processing fee (Non refundable)	₹ 4720.00 (including GST @18%) Through online payment gateway to CONCOR
5	Pre-Bid Meeting	07.09.2021
6	Period of Tender Sale (online)	26.08.2021 at 15:00 hrs to 20.09.2021 at 15:00 hrs
7	Date and time of Submission of of Bid	20.09.2021 at 16:00 hrs
8	Date and time of opening of Bid	21.09.2021 at 11:00 hrs
9	Place of Opening	Executive Director (P&S)/ Area-III, Contained Corporation of India Ltd, NSIC, MDBP Building, 3rd Floor Okhla Industrial Estate, Opp. NSIC Okhla Metro Station New Delhi-110020.
10	Communication Address	Executive Director (P&S)/ Area-III, Container Corporation of India Ltd, NSIC, MDBP Building, 3rd Floor, Okhla Industrial Estate, Opp. NSIC Okhla Metro Station, New Delhi-110020. Email: akmishra@concorindia.com

26.08.2021 at 15:00 hrs to 20.09.2021 at 15:00 hrs. Executive Director/P&S/A-III



♦ The Indian EXPRESS

FINKURVE FINANCIAL SERVICES LIMITED (CIN: L65990MH1984PLC032403)

Regd. Office: 202/A, 02nd Floor, Trade World, D-Wing, Kamala Mills Compound, S.B.Marg, Lower Parel West, Mumbai 400013 Tel No.: 022-4244 1200; Email id: finkurvefinancial@gmail.com;

Website: www.arvog.com

NOTICE

Notice is hereby given that the 37th Annual General Meeting ('AGM') of the Members of Finkurve Financial Services Limited will be held on Monday, 20th September, 2021 at 2.00 p.m. through Video Conferencing ('VC') Other Audio Visual Means ('OAVM'). In compliance with the General Circular issued by the Ministry of Corporate

Affairs ('MCA') dated May 5, 2020 read with General Circulars dated April 8, 2020, April 13, 2020, January 13, 2021 and the SEBI Circular dated May 12, 2020, the soft copy of the Notice of AGM along with Annual Report will be sent to the Members on their registered email addresses. The Notice along with Annual Report will also be available on the Company's website i.e., www.arvog.com and on the website of BSE Limited i.e. Members are requested to register / update any change in their email

address, immediately with the Registrar and Share Transfer Agents ('RTA') of the Company, Link Intime India Private Limited, to enable us to serve the Annual Report for FY 2020-21 and Notice of 37th AGM by electronic means. Members holding shares in electronic form may update such details with their respective Depository Participants.

The Company is pleased to provide its Members the facility to exercise their Right to Vote by electronic means and the business may be transacted through E-Voting services provided by National Securities Depository Limited (NSDL). Additionally, the Company is providing the facility of voting through E-Voting system during the AGM. Detailed procedure for joining the AGM and E-Voting will be provided in the Notice of the AGM. Members attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the guorum under Section 103 of the Companies Act. 2013. By order of the Board of Directors

For Finkurve Financial Services Limited

Ketan Kothari

Chairman

Place: Chennai

Date: 24.08.2021

(DIN: 00230725) Date: 24th August, 2021



Place: Mumbai

IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited Regd Office: Village & Post Office Handiaya, Fatehgarh Channa Road, Barnala, 148107, Punjab (India)

CIN: L24116PB1986PLC007030 Tel: 01679-285285-86, Fax: 01679-285292 E-mail: contact@iolcp.com, Website: www.iolcp.com

NOTICE OF THE 34" ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION ETC.

NOTICE is hereby given that the 34th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited ("the Company") will be held on Saturday, 18th September 2021 at 11:00 AM (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the businesses as set out in the Notice of the AGM (the "AGM Notice") in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013, the Rules made thereunder and Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") read with General Circular No. 02/2021 dated 13th January 2021, 20/2020 dated 5th May 2020, 17/2020 dated 13th April 2020 and 14/2020 dated 8th April 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15th January, 2021 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May 2020 (collectively referred as "Relevant Circulars"). In compliance with the Relevant Circulars, the AGM Notice and Annual Report for the

financial year 2020-21 have been sent on 25th August 2021 to the Members of the Company whose e-mail addresses are registered with the Company/Depository Participant(s). The requirement of sending the physical copy of the AGM Notice and Annual Report to the members have been dispensed with vide above said Relevant Circulars. The aforesaid documents are also available on the Company's website at www.iolcp.com, on the website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively. The Notice of AGM is also available on the website of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") at www.evotingindia.com. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Act and Rule 20 of the Companies

(Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of the Listing Regulations and MCA Circulars, the 'Company is proving the e-voting facility trough CDSL. This facility is being provided to the Members holding shares in physical or dematerialized form, as on 'Cut-off date i.e. Saturday, 11th September 2021 to exercise the right to vote by using remote e-voting and e-voting during the AGM, through e-Voting facilities of CDSL, on any or all of the businesses set out in the AGM Notice. Detailed instructions for remote e-voting facility and e-voting during the AGM are forming part of the AGM Notice. All the members are informed that:

- The Ordinary and Special Businesses, as set out in the AGM Notice, shall be transacted through voting by electronic means and there shall be no physical voting on any business.
- 2. The Cut-off date for determining the eligibility to vote on any business items mentioned in AGM Notice is 11th September 2021. 3. The remote e-Voting period shall commence on Wednesday, 15th September
- 2021 at 9:00 AM (IST) and end on Friday, 17th September 2021 at 5:00 PM The remote e-Voting module shall be disabled by CDSL after the aforesaid date and
- time. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member cannot modify or change it subsequently. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the 34th AGM
- shall be allowed to participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again during the AGM. However, the members participating in the AGM and who had not cast their vote through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be entitled to cast their vote through e-voting system available during the AGM.
- 6. The Register of Members and Share Transfer Books will remain closed from 12th September 2021 to 18th September 2021 for the purpose of the AGM.
- Detailed procedure for remote e-voting or e-voting during the AGM along with instructions for attending the AGM through VC/OAVM are provided in the Notice of

Any person who becomes the member of the Company after sending the AGM Notice by email and holding the shares as on Cut-off date i.e. 11th September 2021 may obtain the login credentials by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com. However if a person is already registered with CDSL for remote e-voting then he can use his existing login id and password and cast his vote. The detailed process for obtaining User id and password is provided in the

The Record date for the purpose of entitlement of shareholders for the final dividend FY 21 is 11th September 2021. The final dividend, as recommended by the Board of Directors, if approved by the members in the AGM, will be paid within 30 days from the date of AGM i.e. latest by 17th October 2021.

Members may be aware that the Income Tax Act, 1961, ("the IT Act") as amended by the Finance Act, 2020, mandates that dividends paid or distributed by a company after April 1, 2020 shall be taxable in the hands of members. The Company shall therefore be required to deduct tax at source ("TDS") at the time of making the payment of final dividend. The Company is sending an email communication to the members of the Company with regard to deduction of tax on dividend as per the amendment introduced by the Finance Act, 2020 in the IT Act. Said email communication contains the details of tax rates for various categories of shareholders (Resident Indian, Non Resident Indian, Fils, FPIs, etc.), and various blank forms and email ID to upload the signed forms and various documents by the shareholders to enable the Company to determine the appropriate TDS / withholding tax rate applicable. The last date for providing the required form / documents through e-mail has been mentioned therein and any communication received thereafter will not be considered. Manner of registering/updating email addresses and mandate for receiving

Dividend: Members who have not registered / updated their email a) Members holding

shares in physical address with the Company, are requested to register/ update the same by sending the duly signed request letter to mode our Registrar and Share Transfer Agent "Alankit Assignment Limited*, 4E/2, Jhandewalan Extension, New Delhi 110055 or at rta@alankit.com mentioning folio number and attaching a self-attested copy of PAN and Aadhar Card. Members are requested to register / update their bank details for receiving dividends directly in their bank accounts by providing the following: (i) Scanned copy of the duly signed request letter mentioning member's name, folio number, Bank account number, Bank and Branch Name alongwith address, IFSC and MICR details,

 b) Members holding Members who have not registered / updated their email shares in address and Bank Details with their Depository Participants. dematerialised are requested to register / update the same with their mode Depository Participants. For any query/ clarification or issues regarding remote e-voting / e-voting during the AGM, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual

(ii) Self-attested copy of PAN card; and

(iii) Cancelled cheque leaf bearing name of first shareholder.

available at www.evotingindia.com, under help section or write to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr Nitin Kunder (022-23058738) or Mr Mehboob Lakhani (022-23058543) or Mr Rakesh Dalvi (022-23058542). for IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited

Place: Ludhiana

Abhay Raj Singh Date: 25th August 2021 Vice President & Company Secretary

Date: 25.08.2021

New Delhi

THE RAJAGIRI RUBBER AND PRODUCE COMPANY LIMITED CIN: U25191KL1937PLC000979

Regd. Office: W-21/674 Beach Road, Alappuzha - 688 012 Email: avt.alapuzha@gmail.com Website: www.rajagirirubber.in Tel. Nos. 0477-2243624, 2243625

NOTICE TO SHAREHOLDERS

TRANSFER OF UNCLAIMED SHARES OF THE RAJAGIRI RUBBER & PRODUCE COMPANY LIMITED

TO THE INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND (IEPF) This notice is issued Pursuant to Section 124 and 125 of the Companies Act,

2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Amendment Rules, 2016 as amended from time to time (the Rules). As per the above Rules, the company is equired to transfer all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for seven consecutive years or more to the DEMAT account of Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority in the manner prescribed under the Rules.

Individual notices as reminders are being sent to concerned shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPF Authority, to their latest available address. The details of such shareholders are also displayed on the Company's Website www.rajagirirubber.in The shareholders are requested to claim the unpaid dividend amount(s) on

or before 10th November, 2021, failing which their shares shall be transferred to IEPF Authority as per the procedure stipulated in the Rules which is as under: The shareholders whose shares are in physical mode, that are liable to be

- transferred to IEPF Account may note that the company would be issuing duplicate share certificate(s) in lieu of the original share certificate(s) held by them for this purpose. Upon such issue, the original share certificate(s) will stand automatically cancelled and will be non-negotiable. Thereafter the Company would be informing the depository by way of corporate action to convert the duplicate share certificate into DEMAT form and transfer it in favour of the IEPF Authority.
- i. In respect of holding in demat mode, by informing the depository by way of corporate action, where the shareholders have their accounts for transfer of shares in favour of the IEPF Authority.

The unclaimed dividends and the shares accordingly transferred to the DEMAT account of the IEPF authority including the benefits accrued thereon, if any, can be claimed by the share holders from IEPF Authority after following the procedure prescribed in the Rules. No claim shall lie against the company.

For any gueries on the above, the shareholders may contact the Company at the above mentioned address / Company's Registrar and Transfer Agent, M/s Cameo Corporate Services Ltd, Subramanian Buildings, 5th Floor, No.1 Club House Road, Chennai 600002, Phone: 044-28460390-95, Email: investor@cameoindia.com

For The Rajagiri Rubber and Produce Co. Ltd.

K.SURESH

Joint Managing Director



पंजीकृत कार्यालय : इंजीनियर्स इंडिया भवन, 1 भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110068 भारत Regd.Office: Engineers India House, 1, Bhikaji Cama Place, New Delhi - 110066 ई—मेल ∕ e-mail: company.secretary@eil.co.in, दूरभाष ∕ Phone: 011-26762855/2580 कंपनी सचिवालय / COMPANY SECRETARIAT NOTICE

INFORMATION REGARDING 56™ ANNUAL GENERAL MEETING Notice is hereby given that 56th Annual General Meeting (AGM) of the Company for the FY 2020-21, will be held on Wednesday, the

29" September, 2021 at 3.00 pm through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the business set out in the Notice calling the AGM, in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with Circular No.14/2020 dated April 08, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 & Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/ 2020/79 dated May 12, 2020 &SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021(Collectively called "relevant circulars"). Members participating through VC/ OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum u/s 103 of the Companies Act, 2013. In compliance with the relevant circulars, the Annual Report of the

- Company containing Notice of the AGM. Financial Statements for the financial year 2020-21, along with Directors' report, Auditor's report and other documents required to be attached thereto, will be sent to all the members of the Company whose email address are registered with the Company/ Depository Participant(s). The members may please note that aforesaid documents will also be available on the Company's website at www.engineersindia.com and on the website of the Stock Exchanges i.e, BSE Limited and NSE Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively.
- 3. Manner of registering / updating email addresses, Bank Details and other Details(whose details are not updated with the Company/Depositories): a) Members holding shares in physical form are once again requested to

send the following details to the Company's Registrar and Share Transfer Agent, M/s Alankit Assignments Limited, having office at 205-208, Anarkali Complex, Jhandewalan Extension, New Delhi-110055 preferably by email at: virenders@alankit.com

S. No.	Particulars	Information required
Ĺ.	Full Name	. 22
ii.	Address	
iii.	Email address	
iv.	Mobile No.	
V.	No. of Shares held	
vi.	Scanned copy of certificate(s)	
vii	Original scan copy of PAN and Aadhar Card	
viii.	Original scan copy of Cancelled Cheque or Passbook signed by Bank Manager with IFSC & MICR NO (For Bank Mandate)	

 b) Members holding shares of the Company in dematerialized form but who have not registered their email address/PAN no / Bank Mandate are requested to approach their respective Depository through Depository Participant.

All those Members whose Bank Account is updated with the Company/Depositories will be receiving dividend, if declared, directly into their Bank Account through Electronic Clearing Services (ECS). Dividend warrants/demand drafts of members whose Bank details are not updated will be dispatched through postal services

. Manner of casting vote(s) through e-voting/venue voting:

 a) Members will have an opportunity to cast their vote(s) on the business as set out in the Notice of the AGM through electronic voting system (remote e-voting/venue voting).

b) The manner of electronic voting through e-voting systems by members holding shares in dematerialised mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses has been provided in the Notice of the AGM, which will be mailed to the members within statutory timeline. The details will also be available on the website of the Company at www.engineersindia.com and is also available on the website of National Securities Depository Limited(NSDL) (agency for providing the Remote Voting facility) at www.evoting.nsdl.com.

c) The Company has fixed:

- Tuesday, September 7, 2021 as the record date for determining entitlement of dividend. Wednesday, September 22, 2021 as the Cut Off date for determining

eligibility of e-voting. d) Any person, who acquires shares of the Company and become a Member of the Company after sending of the Notice of AGM and

holding shares as on the cut-off date i.e. Wednesday, September 22, 2021 or Members' whose e-mail id is not registered with the Company can also request for the soft copy of Annual report/ Notice by sending a request at virenders@alankit.com.The Members can follow the instruction given in the notice for obtaining login credentials and other details for electronic voting system and attending AGM through

Members are requested to carefully read all the notes set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining the AGM. manner of casting vote through electronic voting system.

6. Pursuant to Finance Act, 2020, divided income will be taxable in the hands of the member w.e.f 1st April, 2020 and the Company is required to deduct tax at source ("TDS") from dividend paid to the members at prescribed rates in the Income Tax Act , 1961 ("the IT Act"). For the prescribed rates for various categories, conditions for NIL/preferential TDS and details /documents required thereof, members are requested to refer to the IT Act and Notice of the 56th AGM in this regard. In general to enable compliance with TDS requirements, members are requested to complete and / or update their Residential Status, PAN, Category as per the IT Act with their Depository or in case shares are held in physical form, with the Company by sending email to virenders@alankit.com. . If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting

Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evoting.nsdl.com, under download section or write an email to Ms. Soni Singh at evoting.nsdl.com. Investors may also contact toll free number 18001020 990 or 1800224430. In case of any other query, you may also contact Company Secretary of the Company as per the details below: Engineers India Limited, S.K. Padhi-Company Secretary, 4th Floor, Engineers India Bhawan Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066,

from the e-Voting System, you may refer the Frequently Asked

Tel: 011 26100258, Email: company.secretary@eil.co.in. By order of Board of Directors S.K. Padhi Place: New Delhi Company Secretary

Date: August 26, 2021 financialexp.epar

Place: Pune

website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.

डी.वाई. सं. 422

ऋण वसुली अधिकरण, देहरादुन भारत सरकार. वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग) दूसरी मंजिल, पारस टॉवर, माजरा, सहारनपुर रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड 243171 सार्वजनिक सुचना

ओ.ए. सं. 2020 का 341

यथासंशोधित ऋण वसुली अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1993 के नियम 5 के उपनियम (2ए के साथ पठित ऋण वसली एवं दिवालिया अधिनियम. 1993 की धारा 19 की उपधारा (4 के तहत समन

दिनांक :16.08.2021

इंडसइंड बैंक लिमिटेड बनाम मैसर्स दयाल इंडस्ट्रीज एवं अन्य

9. श्री मनविन्दर सिंह पत्र श्री फल सिंह, निवासी वार्ड सं. 9, मेन बाजार, गदरपर, जिला ऊधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड

जैसा कि यह माननीय अधिकरण रु. 6,66,70,606/- के ऋण की वसुली हेतु आपके विरुद्ध दाखिल ऋण वसूली एवं दिवालिया अधिनियम, 1993 की धारा 19(4) (ओए) के तहत उपर्युक्त नामधारी आवेदक को समन/सूचना सहर्ष जारी करते हैं और इसे रजिस्ट्रार के समक्ष 13.08.2021 को सूचीबद्ध

जबिक अधिकरण की सन्तष्टि तक यह प्रदर्शित किया गया है कि आपके पास सामान्य ढंग से सचन नहीं पहँचाई जा सकती है। अतः यह सुचना इस प्रकाशन के माध्यम से आपको 14.10.2021 को इस अधिकरण के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिकत एजेंट के माध्यम से या विधिक प्रैक्टिशनर के माध्यम से उपस्थित होने का निर्देश दिया जा रहा है। इसके अलावा, आपको यह कारण बताना होगा कि ओए में राहत हेतु प्रार्थना को क्यों न स्वीकार किया जाये तथा अपने बचाव में उत्तर, यदि कोई हो, पेपर बुक प्रारूप में सेटों तथा वे सभी दस्तावेज और शपथपत्र जिसके तहत आपका बचाव या दावा सेट-ऑफ होना हो, काउंटर दावा, इस अधिकरण में व्यक्तिगत रूप से या अपने विधिवत अधिकृत एजेंट य विधिक प्रैक्टिशनर के माध्यम से इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों भीतर प्रस्तुत करनी होगी ध्यान दें कि इस अधिकरण के समक्ष निर्दिष्ट तिथि तथा समय पर अधिकरण के समक्ष आपके उपस्थित होने में असफल रहने पर आपकी अनुपस्थिति में मामले की सुनवाई और फैसला किया जायेगा।

> अधिकरण, रजिस्ट्रार के आदेशानुसार ऋण वसुली अधिकरण, देहरादुन

16 अगस्त, 2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा मुहर सहित

प्रकाशन नाटिस आ०्ए० संख्या 236/2020 वं दिवालियापन अधिनियम, 1993 के सेक्शन 19 के सब—सेक्शन (4) सपिटत उप नियम 5 समय—समय पर संशोधित ऋण वसूली ट्रिब्यूनल (प्रोसीजर) नियम 1993 के अधीन

मैससे हिमालयन प्लास्ट का पजीकृत कार्यालय ग्राम दादूपुर, गोबिदपुरम, रावली महदूद परगना ज्वालापुर, हरिद्वार, उत्तराखंड—249402 में हैं। श्रीमती वर्षा पाल पत्नी स्व. श्री राजीव कुमार पाल, निवासी मकान नंबर 347, रावली

पंजाब नैशनल बैंक बनाम हिमालयन पलास्ट एवं अन्य

महदूद, बहादराबाद, हरिद्वार, उत्तराखंड—249402 श्री राजीव कुमार पाल पुत्र श्री बीरेंद्र कुमार पाल, (मृतक) मास्टर अक्षित पाल पुत्र स्व. श्री राजीव कुमार पाल मे अपनी माता और प्राकृतिक अभिभावक श्रीमती वर्षा पाल पत्नी श्री राजीव कुमार पाल, चिवासी मकान नंबर 347,

रावृती महदूद, बहाद्राबाद, हरिद्वार, (यूके) 249402 के माध्यम से प्रतिनिधित्व किया। सुश्री वान्या पाल पुत्री स्व.श्री राजीव कुमार पाल ने अपनी माता और प्राकृतिक अभिभावव

श्रीमती वर्षा पाल पत्नी श्री राजीव कुमार पाल, निवासी मकान नंबर 347, रावली महदूद हादराबाद, हरिद्वार, (उद्तराखण्ड) 249402 के माध्यम से प्रतिनिधित्व किया। श्री. वीरेंद्र कुमार पाले निवासी हाउस नंबर 347, रावली महदूद, बहादराबाद, हरिद्वार

श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी श्री बीरेंद्र कुमार पाल, निवासी हाउस नंबर 347, रावली महदूद बहादराबाद, हरिद्वार, उत्तराखण्ड—249402

श्रीमती मनीषा पत्नी श्री संदीप कुमार

तहसील एवं जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड–249402 कि उपसेक्त वर्णित आवेदक बैंक ने आपके विरुद्ध रू. 47,60,234.15 / - क्

वसूली हेतु ओ०ए० सं० 236 / 2020 संस्थित किया है. जिसमें कि माननीय न्यायाधिकरण ऋण वसूली एवं दिवालियापन अधिनियम, 1993 की धारा 19(4) के सम्मन / नोटिस जारी पोठासीन अधिकारी के समक्ष 23.07.2021 की सूचीबद्ध किया गया था यह कि, माननीय ट्रिब्यूनल इस बात से सन्तुष्ट है कि सामान्य तरीके से मांग नोटिस जार

किया जाना संभव नहीं है, इसलिए इस प्रकाशन के जरिये दी जा रही सूचना के द्वारा आपके निर्वेशित किया जाता है कि आप दि० २७.०८.२०२१ को अथवा इससे पूर्व आप स्वयं व्यक्तिगत रुप से अथवा अपने अधिकृत एजेएट या लीगल प्रैक्टिशनर के माध्यम से माननीय ट्रिब्यूनल उपस्थित हों। इसके अलावा, आपको यह दिखाने की आवश्यकता है कि ओ०ए० में दी गई राहत की अनुमति क्यों नहीं दी जानी चाहिए और सेट में एक पेपर बुक फॉर्म में अपने बचाव और यदि कोई हो, तो सभी दस्तावेजों और शपथ पत्रों के तहत अपने बचाव में दायर करें व्यक्तिगत रूप से या इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर, इस ट्रिब्यूनल में व्यक्तिगत रूप से या आपके विधिवत अधिकृत एजेंट या कानूनी व्यवसायी के माध्यम से सेट अप, काउंटर क्लेम के लिए आपका बचाव या दावा प्रस्तुत करे

सूचित हों कि निधारित दिवस एवं समय पर द्रिब्यूनल में आपकी उपस्थिति की चूक की दशा में इस प्रकरण पर सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपरिश्रवि में किया जायेगा। दिनांक 26 जुलाई, 2021 के दिन अधिकरण की मुहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी

द्रिब्युनल के आदेशानुसार रजिस्ट्रार, ऋण वसूली द्रिब्युनल, बेहरादून (मो): 95600_72676, (ओ) 0135_2720854

यूपी होटल्स लिमिटेड

CIN: L55101DL1961PLC017307

पंजीकृत कार्यालय: 1101, सूर्य किरण, 19, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001 फोन.: 011-23722596-8, फैक्स: 011-23312990

ईमेल : clarkssuryakiran@yahoo.co.in वेबसाईट: www.hotelclarks.com 60वीं वार्षिक साधारण सभा की सचना एतद्द्वारा कि यूपी होटल्स लिमिटेड (''कम्पनी') के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कंपनी (प्रबंध

एवं प्रशासन्) नियमावली, 2014, यथा संशोधित के नियम 20 तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी साधारण सर्क्युलर नं. 14/2020 तिथि 8 अप्रैल, 2020, साधारण सर्क्युलर नं. 17/2020 तिथि 13 अप्रैल, 2020, साधारण सर्क्युलर नं. 20/2020 तिथि 5 मई, 2020, साधारण सर्क्युलर नं. 33/2020 दिनांक 28 सितम्बर, 2020, साधारण सर्क्युलर नं. 39/2020 दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 तथा साधारण सर्क्युलर नं. 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 (सामूहिक रूप से एमसीए सर्क्युलर्स विदित) तथा भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी सर्क्युलर नं. SEBI/HO/CFD/CIR/P/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 तथा सर्क्युलर नि. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021 ('सेबी सर्क्युलर') के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में एजीएम सचना तिथि 12 अगस्त, 2021 में निर्दिष्ट साधारण व्यवसाय के मदों को निष्पादित करने के लिये सदस्यों की 60वी (साठवीं) वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) शनिवार, 25 सितम्बर, 2021 को 2.30 बजे अप. मे विडियो कान्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विज्अल माध्यमों (ओएवीएम) द्वारा आयोजित की जायेगी।

उक्त एमसीए सर्क्युलर तथा सेबी सर्क्युलर के अनुसार कम्पनी ने ऐसे शेयरधारकों जिनके ईमेल पता कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेन्ट ('आरटीए') अर्थात् स्काईलाइन फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड (भौतिक शेयरों के मामले में) तथा डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स (डीमैटेरियलाइज्ड पद्धत्ति में धारित शेयरों के मामले में) के पास पंजीकृत हैं, को केवल ई-मेल द्वारा बुधवार, 25 अगस्त, 2021 को 60वें एजीएम की सूचना तथा वित्त वर्ष 2020-21 के लिये वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी द्वारा भेज दी गई है। सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियाँ भेजने की आवश्यकता एमसीए सर्क्युलर तथा सेबी सर्क्युलर के माध्यम से समाप्त

जिन सदस्यों का भौतिक तथा डीमैट पद्धत्ति में ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है तथा उसके कारण उन्हें सूचन प्राप्त नहीं हुआ है, वे लिंक www.skylinerta.com/EmailReg.php पर क्लिक कर तथा उसके बाद निर्देशित पंजीकरण प्रक्रिया का अनुसरण कर कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेन्ट, स्काईलाइन फाइनांसियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के पास अस्थाई रूप से अपना ईमेल पता पंजीकृत करा सकते हैं ईमेल पता के सफल पंजीकरण के उपरांत सदस्यों को सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट एवं एजीएम में ई-वोटिंग सहित यूजर आईडी एवं पास्वर्ड के साथ रिमोट ई-वोटिंग के लिये प्रक्रिया की सॉफ्ट कॉपी प्राप्त होगा ताकि वि इस एजीएम के लिये रिमोट ई-वोटिंग में सक्षम हो सकें। किसी भी प्रकार की पछताछ के लिये सदस्य

|compliances@skylinerta.com को लिखें। रपष्ट किया जाता है कि ईमेल पते के स्थाई पंजीकरण के लिये सदस्यों से आग्रह है कि इलेक्ट्रॉनिक धारित के संदर्भ में अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स के पास तथा भौतिक धारिता के संदर्भ में स्काई लाइन फाइनांसियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड, डी-153/ए, 1ला तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज 1, नई दिल्ली–110020 के पास फोलियो नम्बर, शेयर प्रमाणपत्र सं., सम्पूर्ण पता तथा पैन एवं किसी अन्य दस्तावेज (जैसे ड्राइविंग लाइसैन्स, पास्पोर्ट, बैंक के विवरण, आधार) जो सदस्यों के पंजीकृत पते का समर्थन करत हो, की स्कैन की गई स्वतः सत्यापित प्रति के साथ पंजीकृत किये जाने वाले ई–मेल पते का उल्लेख करते हुए एक हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन की गई प्रति भेजें। जिन सदस्यों ने पूर्व में हीं अपने ईमेल पत पंजीकृत करा लिये हों. से अनुरोध है कि अपने डिपॉजिटरीज/डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट/आरटीए के पास उसे अद्यतन कराते रहें ताकि सचना तथा दस्तावेज उनके ईमेल आईडी पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जा सके।

सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है किः कट–ऑफ तिथि अर्थात् 18 सितम्बर, 2021 को भौतिक पद्धत्ति या डीमैटेरियलाइज्ड पद्धत्ति मे शेयरधारित करने वाले सदस्य नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा उपलब्ध कराई गई रिमोट ई-वोटिंग द्वारा उक्त सुचना में निर्दिष्ट सभी साधारण व्यवसाय के मदों पर अपना मतदान

ii. एजीएम सूचना तिथि, 12 अगस्त, 2021 में निर्दिष्ट सभी साधारण तथा विशेष व्यवसायों को रिमोट ई-

वोटिंग द्वारा निष्पादित किया जा सकता है। iii. 60वें एजीएम सूचना के प्रेषण की पूर्णता तिथिः 25 अगस्त, 2021

iv. रिमोट ई-वोटिंग शुरू होने की तिथि एवं समयः 22 सितम्बर, 2021 तथा 9.30 बजे पूर्वा. v. रिमोट ई-वोटिंग बंद होने की तिथि एवं समय: 24 सितम्बर, 2021 को 5.00 बजे सायं vi. पस्तक बंद होनाः सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पस्तकें शनिवार, 18 सितम्बर,

2021 से शनिवार, 25 सितम्बर, 2021 (दोनों दिवस सहित) तक बंद रहेंगे। vii. रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम में मतदान करने के लिए सदस्यों की पात्रता सुनिश्चित करने की कट-

ऑफ तिथिः 18 सितम्बर, 2021 viii. 24 सितम्बर, 2021 को 5.00 बजे सायं के बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग पद्धति निष्क्रिय

कर दी जाएगी। सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर देने के बाद उन्हें बाद में उसमे परिवर्तन करने की अनमति नहीं दी जाएगी। ix. एजीएम के लिये वीसी/ओएवीएम सुविधा उपलब्ध कराने के लिये कम्पनी ने आरटीए की सेवाऐं प्राप्त

की है। वीसी/ओएवीएम द्वारा एजीएम में शामिल होने का तरीका तथा रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान करने की प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी गई है। कृपया ध्यान रहे कि वीसी/ओएवीएम द्वारा एजीएम में शामिल होने तथा एजीएम के दौरान प्रस्तावों पर ई-वोटिंग के लिये वही लागिन क्रिडेन्शियल जरूरी होगा। अधिनियम की धारा 103 के अंतर्गत वीसी/ओएवीएम द्वारा एजीएम में शामिल होने वाले सदस्यी की कोरम सनिश्चित करने हेत गणना की जायेगी।

 रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपने मतदान कर देने के बावजुद भी सदस्य एजीएम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन, एजीएम में उन्हें फिर से मतदान की अनमित नहीं दी जाएगी। सदस्यों के मतदान का अधिकार 18 सितंबर, 2021 जो कट-ऑफ तिथि है, को कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनकी शेयरों के

xi. जिस व्यक्ति का नाम कट–ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा प्रबंधित लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज होगा, वे ही रिमोट ई-वोटिंग अथवा ई-वोटिंग द्वारा एजीएम मे मतदान करने के लिए अधिकृत होंगे।

 xii . कंपनी तथा एजंसी- एनएसडीएल की वेबसाईट का पता जहां सूचना प्रदर्शित है। www.hotelclarks.com तथा www.evoting.nsdl.com क्रमशः। पुनः सार्वजनिक सूचन (समाचार पत्र प्रकाशन) को कंपनी तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट क्रमश www.hotelclarks.com तथा www.bseindia.com पर प्रदर्शित किया जाएगा।

सदस्यों के लिए Frequently Asked Questions (FAQ's) तथा सदस्यों के लिए उपलब्ध रिमोट ई-वोटिंग यूजर मैन्युअल देखें या टोल फ्री नं. 1800-222-990 पर कॉल करें अथवा evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजें।

रिमोट ई-वोटिंग से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के संपर्क का विवरणः श्री प्रकाश चंद्र प्रुस्ती, कंपनी सचिव से पंजीकृत कार्यालयः 1101, सूर्य किरण, 19, कस्तुरबा गांधी मार्ग, नई में

दिल्ली-110001, 011-23722596-8, ई-मेल आईडीः clarkssuryakiran@yahoo.co.in.

यूपी होटल्स लिमिटेड

प्रकाश चन्द्र प्रुस्ती



KALYAN JEWELLERS INDIA LIMITED

INFORMATION REGARDING 13th ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM)

1. Notice is hereby given that the 13th Annual General Meeting (AGM) of the Company is scheduled to be held on Thursday, September 23, 2021 at 10.30 AM through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM) incompliance with Circular No. 2/2021 dated January 13, 2021 and Circular No.20/2020 dated May 5, 2020 and all other applicable laws and circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), Government of India and Securities and Exchange Board of India (SEBI), to transact the Ordinary and Special Businesses set out in the Notice of 13th AGM.

2. In compliance with the above circulars, electronic copies of the Notice of the AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2020-2021 will be sent to all the shareholders whose e-mail addresses are registered with the Company/Registrar and Transfer Agents (RTA) or Depository Participant (Stock Broker). The Notice of the AGM along with Annual Report for the Financial Year 2020-2021, will be made available on the websites of the Company at www.kalyanjewellers.net and the Stock Exchanges, BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited and e-voting agency, NSDL.

3. Manner of Casting vote through remote E-Voting - Detailed process and manner for attending the AGM and casting vote through remote e-voting and e-voting at AGM for Members holding shares in dematerialised mode, physical mode and for Members who have not registered their email address is being provided in the Notes to the AGM Notice.

4. Manner of Registering / updating email address - Members of the Company holding equity shares of the Company in physical form and who have not registered their e-mail address may get their email address registered with the Company at cs@kalyanjewellers.net by providing a request letter duly signed by the shareholder providing details such as Name, Folio Number, Certificate Number, PAN, Mobile Number and e-mail address. Members holding shares in Demat Mode are requested to register their e-mail address and mobile number, in respect of Demat holdings with the respective Depository Participants by following the procedure prescribed by the concerned Depository Participants.

5. Notice of the 13th AGM and Annual Report for FY 2020-2021 will be sent to the shareholders in accordance with the applicable laws only in electronic mode.

> For Kalyan Jewellers India Limited Jishnu RG

Place: Thrissur Date: August 26, 2021

Company Secretary

Kalyan Jewellers India Limited

CIN-U36911KL2009PLC024641 Registered Office -TC-32/204/2, Sitaram Mill Road, Punkunnam, Thrissur, Kerala - 680 002 Web: www.kalyanjewellers.net | Email: cs@kalyanjewellers.net

इंजीनियर्स ENGINEERS इंडिया लिमिटेड अङ्ग्ल INDIA LIMITED

पंजीकत कार्यालय : इंजीनियर्स इंडिया भवन, 1 भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 भारत Regd.Office: Engineers India House, 1, Bhikaji Cama Place, New Delhi - 110066 ई-मेल / e-mail: company.secretary@eil.co.in, दरमाष / Phone: 011-26762855/2580 कंपनी सचिवालय / COMPANY SECRETARIAT

56वीं वार्षिक सामान्य बैठक के संबंध में सूचना

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 हेत् कम्पेनी की 56वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम), बुधवार, 29 सितम्बर, 2021 को अप. 03.00 बजे, एजीएम आयोजन की सूचना में सूचीबद्ध व्यवसाय के निष्पादन हेत्, कम्पनी अधिनियम, 2013 के सभी लागु प्रावधानों एवं तदधीन विरचित नियमों तथा सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के साथ पठित कार्पोरेट मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी सर्कुलर नंबर 14 / 2020 दिनांकित 08 अप्रैल, 2020, सर्कुलर नंबर 17 / 2020 दिनांकित 13 अप्रैल, 2020, सर्कलर नंबर 20/2020 दिनांकित 05 मई, 2020 तथा सर्कुलर नंबर 02/2021 दिनांकित 13 जनवरी, 2021 और सेबी सर्कुलर नंबर सेबी/ एचओ / सीएफडी / सीएमडी1 / सीआईआर / पी / 2020 / 79 दिनांकित 12 मई. 2020 एवं सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी२ / सीआईआर / पी / 2021 / 11 दिनांकित 15 जनवरी, 2021 (सामृहिक रूप से "संबद्ध सर्कुलर्स" कहे गए हैं) के अनुपालन में, वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से, आयोजित की जाएगी। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भाग ले रहे सदस्यों की गणना अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत गणपूर्ति के प्रयोजनार्थ की जाएगी।

संबद्ध सर्कलर्स के अनुपालन में, कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट जिसमें एजीएम की सचना, वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु वित्तीय विवरण, निदेशकगण की रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा उसके साथ संलग्न किए जाने हेतु अपेक्षित अन्य दस्तावेजों के साथ कम्पनी के जन सभी सदस्यों को भेजी जाएगी, जिनका ई-मेल पता कम्पनी / डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट (पार्टिसिपॅट्स) के पास पंजीबद्ध है। सदस्यगण कृपया नोट करें कि उपरोक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट www.engineersindia.com पर तथा स्टॉक एक्सचेंजेज नामतः बीएसई लिमिटेंड और एनएसई लिमिटेंड की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com क्रमानुसार पर भी उपलब्ध होंगे।

ई—मेल पता, बैंक विवरण तथा अन्य विवरण पंजीकरण / अद्यतनीकरण की विधि (जिनका विवरण कम्पनी / डिपॉजिटरीज के पास अद्यतन नहीं करवाया गया है)

(क) भौतिक रूप में शेयरों के धारक सदस्यों से पुनः अनुरोध है कि वे निम्नलिखित विवरण कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेनट, मैसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड, कार्यालय पता : 205–208, अनारकली कॉम्प्लेक्स, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110055 को अधिमानतः ई—मेल द्वारा virenders@alankit.com पर भेज दें।

क्र. सं.	विवरण	अपेक्षित सूचना
į,	पूरा नाम	
ii.	पता	
iii.	ई–मेल पता	
iv.	मोबाइल नंबर	
v.	धारित शेयरों की संख्या	
vi.	प्रमाणपत्र(त्रों) की स्कैन की गई प्रति	
vii.	पैन कार्ड तथा आधार कार्ड की मूल स्कैन प्रति	
viii.	निरस्त चैक अथवा बैंक प्रबंधक द्वारा आईएफएससी एवं एमआईसीआर नंबर सहित हस्ताक्षरित पासबुक की मूल स्कैन प्रति (बैंक आदेश के लिए)	

(ख) अभौतिक रूप में कम्पनी के शेयरों के धारक जिन सदस्यों ने अपना ई-मेल पता / पैन नंबर / बैंक आदेश पंजीकृत नहीं करवाया गया है, उनसे अनुरोध है कि वे डिपॉजिटरी पार्टिसिपँट के माध्यम से अपने संबंधित डिपॉजिटरी से सम्पर्क करें।

उन सभी सदस्यों. जिनका बैंक खाता कम्पनी / डिपॉजिटरीज के पास अद्यतित है. को लामांश, यदि घोषित किया गया, सीधे उनके बैंक खाते में इलेक्टॉनिक क्लीयरिंग सर्विसेज (ईसीएस) के माध्यम से प्राप्त होगा। जिनका सदस्यों का बैंक खाता कम्पनी / डिपॉजिटरीज के पास अद्यतित नहीं है, उनका लागांश वारंट / डिमांड ड्राफट डाक द्वारा

ई-वोटिंग / वेन्यू वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की विधि :

(क) सदस्यगण को एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध व्यवसाय पर अपना / अपने वौट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ("ई-वोटिंग / वेन्यु वोटिंग") के माध्यम से डालने का अवसर प्रदान किया जाएगा

(ख) अभौतिक रूप, भौतिक रूप में कम्पनी के शेयरों के धारक जिन सदस्यों ने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं करवाया गया है, उनके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की विधि एजीएम की सूचना में दी गई है, जो सदस्यों को सांविधिक समयसीमा के भीतर 'मेल' की जाएगी। यह विवरण कम्पनी की वेबसाइट www.engineersindia.com पर भी उपलब्ध होगा तथा नैशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) (रिमोट ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराने हेतु एजेन्सी) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

(ग) कम्पनी ने

लाभांश के अधिकार निर्धारण के लिए कट-ऑफ तिथि मंगलवार, 7 सितम्बर, 2021

ई-वोटिंग की ग्राह्मता निर्धारण के लिए कट-ऑफ तिथि बुधवार, 22 सितम्बर, 2021

(घ) कोई व्यक्ति जो सचना के प्रेषण के पश्चात कम्पनी के शेयर अर्जित करता है तथा कम्पनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि अर्थात बुधवार, 22 सितम्बर, 2021 को शेयरों का धारक है अथवा सदस्यगण, जिनके द्वारा अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं करवाया गया है, वे भी वार्षिक रिपोर्ट/सूचना की सॉफ्ट कॉपी के लिए virenders@alankit.com पर अनुरोध कर सकते हैं। सदस्यगण इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम तथा एजीएम में वीसी / ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने के लिए लॉगइन प्रत्ययपत्र और अन्य विवरण प्राप्त करने के लिए उक्त सूचना में दिए अनुदेश का पालन

एजीएम में भाग लेने, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट डालने की विधि संबंधी अनुदेश सावधानी के साथ पढ़ लें। 6. वित्त अधिनियम, 2020 के अनुसरण में, 01 अप्रैल, 2020 की प्रभावी तिथि से सदस्यों के

सदस्यों से अनुरोध है कि एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध सभी नोट्स और विशेष रूप से

हाथों में लाभांश आय कर योग्य होगी तथा कम्पनी द्वारा सदस्यों को भूगतान किए गए लामांश से आयकर अधिनियम, 1961 (आईटी ऐक्ट) में निर्धारित दरों पर स्रोत पर कर कटौती की जानी ("टीडीएस") अपेक्षित है। विभिन्न संवर्गों के लिए निर्धारित दरें, एनआईएल / अधिमान्य टीडीएस हेत् शर्ते तथा उसके लिए अपेक्षित विवरण / दस्तावेज के लिए, सदस्यों से इस संबंध में आईटी ऐक्ट तथा 56वीं एजीएम की सूचना देखने का अनुरोध है। टीडीएस अपेक्षाओं के सामान्य अनुपालन की सक्षमता हेत्, सर्वस्यों से अनुरोध है कि ये अपनी निवास रिथति, पैन, आईटी ऐक्ट के अनुसार संवर्ग का विवरण अपने डिपॉजिटरी के पास अथवा शेयर भौतिक रूप में धारित हैं, तो कम्पनी को virenders@alankit.com पर ई-मेल भेजकर पूर्ण तथा / अथवा अद्यतित करवा लें।

यदि आपको एजीएम में भाग लेने एवं ई-वोटिंग सिस्टम से ई-वोटिंग के संबंध में कोई संदेह अथवा समस्या है, तो आप www.evoting.nsdl.com में डाउनलोड सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध फ्रीक्वेंटली आस्वड क्वेश्चन्स ("एफएक्यूज") तथा ई-वोटिंग मैन्अल देखें अथवा सुश्री सोनी सिंह को evoting.nsdl.com पर ई-मेल भेजें। निवेशक टोल फ्री नंबर 18001020 990 अथवा 1800224430 पर भी सम्पर्क कर सकते हैं। किसी अन्य पुछताछ के लिए, आप कम्पनी के कम्पनी सेक्रेटरी से भी नीचे दिए विवरण के अनुसार

इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, एस. के. पाढी-कम्पनी सचिव, चतुर्थ तल, इंजीनियर्स इंडिया भवन 1, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066; फोन : 011-2610 0258 ई-मेल : company.secretary@eil.co.in

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा एस. के. पाढी कम्पनी सचिव

वृतीय तल. यूनिट ३०४. पिरामल टॉवर, पेनिन्सुला कॉर्पोरेट पार्क, लोअर परेल, मुंबई-४००१३ India RF इंडिया रिसर्जेन्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड

नीलामी / बिक्री सुचना

एतद द्वारा प्रतिभतिकरण और वित्तीय अस्तियों के पुनर्निमाण और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफेसी अधिनियम) और नियम 8 (6) व 9 की सरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अंतर्गत अंचल संपत्ति लोन एग्रीमेंट नं. XMORPNG00077224 द्वारा रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेंड (बाद में "सरक्षित लेनदार" के रूप संदर्भित किया जाएगा) के पास गिरवी थी तथा सुरक्षित लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय अस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी एक्ट 2002)के नियम 13(2) के तहत दिनांक 24,06,2020 को जारी मांग सचना के 60 दिन के पश्चात उधारकर्ता द्वारा ऋण चकता करने में असफलता के उपरांत सुरक्षित लेनदार ने प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(3) तथा धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए बंधक संपत्ति का 06,03,2021 को भौतिक कब्जा लेने के उपरांत नीलामी/बिक्री की सचना दी जाती है।

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 की धारा 13(4) के प्रावधानों के तहत कब्जा लेने के उपरांत इस संबंध में सूचना दिनांक 09,03,2021 को "फायनेंशियल एक्सप्रेस" (अंग्रेजी) संस्करण और "जनसत्ता" (हिन्दी) समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था।

जबिक उधारकर्ता देय राशि को चुकाने में विफल रहा है, सुरक्षित लेनदार ने संबंधित ऋण समझौते को अपने सभी अधिकारों, शीर्षक, ब्याज और किसी भी अंतर्निहित सुरक्षा व्याज प्रतिज्ञा या गारंटी के साथ ऐसे ऋणों को एक ऋण समझौते के तहत **इंडिया रिसर्जेस एआरसी प्राईवेट लिमिटेड को** सौंपे हैं। जो कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत निर्मित, (सरफोसी एक्ट 2002) के सेक्शन 3 अनुसार एसेट रिकंस्टक्शन कंपनी के रुप में दिनांक 05,11,2019 को हस्ताक्षरित डीड द्वारा पंजीकृत है। अधोहस्ताक्षरी, **इंडिया रिसर्जेस एआरसी प्राईवेट लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उधारकर्ता और गारंटर **पूना कलकत्ता रोड कैरियर,** प्रोपराइटर **मोहम्मद राहिस** के माध्यम से, 2, **अमीर खान, 3, इक्वाल** बेगम, 4. मोहम्मद राहिस द्वारा दिनांक 17,06,2020 तक बकाया देय राशि रू. 1,42,27,595,08 (रुपए एक करोड बयालिस लाख **सत्ताईस हजार पांच सौ पिचानवे और आठ पैसे केवल**) तथा ब्याज और अन्य सॉविदात्मक देय राशि की वसुली हेतू निम्न संपत्तियों का 'जैसा है जहां है', 'जैसा है जो भी है', तथा 'जो कुछ भी है' के आधार पर संपत्तियों को बेचने का निर्णय लिया है।

अत: सरक्षित लेनदार के प्राधिकत अधिकारी ने निर्धारित संपत्ति/यों को इच्छक खरीदारों से एक सीलबंद लिफाफे में बोली सह नीलामी आमंत्रित करने की प्रक्रिया के माध्यम से बेचने का निर्णय लिया है। उक्त संपत्ति की नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य रु. 1,26,72,000/- (रुपये एक करोड़ छब्बीस लाख बहत्तर हजार मात्र) और बयाना राशि रु. 12,67,200/- यानि आरक्षित मूल्य का 10% और **''इंडिया रिसर्जेंस एआरसी** टस्ट ॥'', बैंक खाता 57500000340699, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, के खाते में निविदा जमा करने से पहले डीडी / आरटीजीएस के माध्यम से जमा किया जाएगा। सफल बोलीदाता को बिक्री मूल्य की 25% राशि (बोली के साथ भुगतान की गई 10% राशि कम) बोली की स्वीकृति के समय अर्थात उसी दिन जमा करना होगा। बिक्री मूल्य का शेष 75% बोली की स्वीकृति की तारीख से 15 दिनों के भीतर जमा करना आवश्यक हैं।

अचल संपत्ति का विवरण

संपत्ति के सभी भाग : 75 वर्ग गज फ्री होल्ड संपत्ति नं. 4, ब्लॉक डी का आधा बना हुआ हिस्सा, जो खसरा नं. 262/258/217/14 में से निर्मित है और जो ग्राम भारोला कालोनी जो आदर्श नगर के नाम से जानी जाती है राणा प्रताप रोड, दिल्ली-110033 में स्थित है। व इसकी चारदीवारी है: पर्व : संपत्ति संख्या डी 6; पश्चिम : संपत्ति का शेष भाग; उत्तर : राणा प्रताप रोड; दक्षिण : लेन 10 फट।

क) बोली जमा करने की अंतिम तिथि : 13.09.2021 को साथं 5.30 बजे. शाखा कार्यालय : इंडिया रिसर्जेस एआरसी प्राईवेट लिमिटेड, युनिट नं. 601, छठीं मंजिल, टाइम टॉवर, मेन एमजी रोड, सेक्टर-28, गुरूग्राम-122002 (हरियाणा)

ग) सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि व समय : 11,09,2021 तक बिक्री की नियम व शर्ते :-

ख)बोली/निविदा खुलने की तिथि व स्थान : 14.09.2021 को दोपहर 3.00 बजे उपरोक्त पते पर होगी।

 संपत्ति का पूर्ण विवरण प्राधिकृत अधिकारी के पास उपलब्ध है। संपत्तियों का निरीक्षण व दस्तावेज प्राधिकृत अधिकारी द्वारा तय तिथि व समय पर किया जा सकता है।

इच्छ्क बोलीदाता अपनी बोली को प्राधिकृत अधिकारी को एक सीलबंद लिफाफे में जिस पर अंकित हो "क्लॉक डी, गांव भरोला कॉलोनी, आदर्श नगर, राणा प्रताप रोड, दिल्ली-110033'' स्थित संपत्ति की नीलामी हेतू तथा "इंडिया रिसर्जेंस एआरसी ट्स्ट ॥" के पक्ष में, बैंक खाता 57500000340699, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, को देय डिमांड डाफ्ट के रूप में बयाना राशि 13,09,2021 को प्रात: 11,30 बजे तक उपरोक्त पते पर सुरक्षित लेनदार को भेजें।

सीलबंद बोली को 14.09,2021 को दोपहर 3.00 बजे खोला जाएगा तथा उसके पश्चात योग्य बोलीदाताओं को परस्पर बोली बढाने के लिए प्राधिकत अधिकृत द्वारा अनुमति दी जा सकती है।

सफल बोलीदाता को बोली की 25 प्रतिशत राशि ईएमडी सम्मिलित डिमांड डाफ्ट/चेक के रूप में जो "इंडिया रिसर्जेंस एआरसी टस्ट ॥" के पक्ष में, बैंक खाता 57500000340699, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, दिल्ली/गृडगाँव में देव हो, उसी दिन जमा करानी होगी और बकाया राशि सरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री की पुष्टि करने के 15 दिनों के भीतर सफल बोलीदाता द्वारा जमा करानी होगी। सफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई आस्टीजीएस/ईएमडी व बिक्री मुल्य पर कोई ब्याज नही दिया जायेगा। जमा बयाना राशि अथवा बिक्री मुल्य का 25 प्रतिशत, जो कोई भी हो, **सरक्षित लेनदार** द्वारा जब्त कर लिया जायेगा यदि सफल बोलीदाता बिक्री की नियम व शर्तों का पालन करने में विफल रहता है या कोई चक होती है।

सफल बोलीदाता को सांविधिक देय राशि करों/बिलों इत्यादि, नगर निगम व अन्य प्राधिकारियों को देय सभी खर्चे इयुटी इत्यादि, तथा बिक्री प्रमाण-पत्र के पंजीकरण हेत पंजीकरण शल्क भी वहन करने होगें।

सरक्षित लेनदार बिक्री संपत्ति के संदर्भ में किसी भी अधिकारी या कानन के तहत अनुमति प्रमाण-पत्र व अन्य देय राशि अर्थात पानी/बिजली/सम्पत्ति कर का बकाया और अन्य चार्जे इत्यादि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

प्राधिकत अधिकारी को बिना कारण बताए किसी एक या सभी प्रस्तावों/बोलियों को स्वीकार/अस्वीकार/स्थगित/बिक्री को रदद करना या किसी पूर्व सूचना के बिना बिक्री की किसी भी शतों को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित है।

सम्पत्ति/सम्पत्तियों पर किसी भी प्रकार के अन्य ऋणभार के बारे में **सुरक्षित लेनदार** को अपने ज्ञान के अनुसार कोई जानकारी व सूचना नहीं है। इच्छुक पार्टियाँ अपनी संतुष्टि के लिए सम्पत्तियों का आंकलन खुद करें। **सुरक्षित लेनदार** उपरोक्त सम्पत्तियों का शीर्षक के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के प्रतिनिधित्व की गारंटी नहीं करता। अन्य किसी भी जानकारी हेतु संपर्क करें श्री शक्ति श्रीवास्तव - 9811749628 या श्री दीपक खन्ना - 9818164585

सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम २००२, ६(२), ८(६) व ९(१) के अंतर्गत १५ दिनों की सांविधिक सूचना कर्जदार/सह-कर्जदार/गारंटरों/बधंक को एतद द्वारा नीलामी की तिथि से पूर्व उपरिवर्णित राशि अद्यतन किए गए ब्याज और अनुषंगी व्ययों सहित अदा करने हेत् अधिसचित किया जाता है, जिसमें विफल रहने पर संपति की नीलामी/बिक्री की जाएगी और शेष देयताएँ

यदि कोई है, ब्याज और लागत सहित वसल की जाएगी। इंडिया रिसर्जेंस एआरसी प्राइवेट लिमिटेड, प्राधिकृत अधिकारी विनांक : 26,08,2021

दबावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा, तृतीय एवं चतुर्थ तल, स्टेट बैंक हाउस, 18/4, आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली—110005 फोनः 011—28752163, फैक्सः 28755674 ई-मेल : sbi.51521@sbi.co.in

शुद्धि पत्र

n भारतीय स्टेट बैंक

यह शुद्धिपत्र जनसत्ता (हिंदी) और फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी) समाचार पत्रों में दिनांक 20.08.2021 और 24.08.2021 को प्रकाशित नोटिस जो कि क्रमशः ई-नीलामी **दिनांक** 15.09.2021 तथा ई-नीलामी दिनांक 24.09.2021 के संदर्भ में है:-कपया "एनईएफटी / आरटीजीएस" के

स्थान पर "एनईएफटी" पढ़ें। अन्य नियम व शर्ते समान रहेंगी प्राधिकत अधिकारी,

भारतीय स्टेट बैंक सार्व-।। दिनांकः 25.08.2021 करोल बाग, नई दिल्ली स्थानः नई दिल्ली (शाखा कोड 51521

Criminal Courts, Ludhiana

In The Court Of Sh. Ramesh Kumar JMIC Ludhiana

next date, purpose of case, orders and judgments as well as other case information is available on http://districts.ecourts.gov.in/ludhiana

CNR NO: PBLD03-021870-2019 Next date: 28-09-2021 Bebe Designs BMI Wholesale Trading Pvt Ltd

Publication Issued To: BMI Wholesale Trading Pvt Ltd

Address- BMI Wholesale Trading Private Limited C/o Fedex Express Transportation And Supply Chain Services Pvt Limited Logistics, NDR, Warehousing Survey No. 95/96, Village Vadape Taluka Bhiwandi 421302 Dist. Thane, Maharashtra Through Its Directors Namely VIJAY Mohan Murjani, RAJINDRA Ashok Bhave And Vishwanathan 2. VIJAY Mohan Murjani Director Of BMI Wholesale Trading Private Limited 3. RAJINDRA Ashok Bhave Director Of BMI Wholesale Trading Private Limited 4. Vishawanathan Director Of BMI Wholesale Trading Private Limited 5. Nitin Karkotr Authorised Signatory Of BMI Wholesale Trading Private Limited 6. Ganesh Nar Authorised Signatory Of **BMI Wholesale Trading Private Limited** All Defendants Address Are Same Address: BMI Wholesale Trading Limited C/o Fedex Express Transportation And Supply Chain Services Pvt Limited

95/96, Village Vadape Taluka Bhiwandi 421302 Dist. Thane, Maharashtra Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you the above named accused/ accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under section 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on the date of publication of this proclamation, take notice that, in case of default on your part to ppear as directed above the above said case absence, for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&di JMIC Ludhiana

Logistics, NDR, Warehousing Survey No.

फोस्टर इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटिड

CIN: L51103DL1980PLC299384 पंजीकृत कार्यालय : फ्लैट नं. 702, 7वां फ्लोर, कंचनजंगा बिल्डिंग, 18 बाराखम्बा रोड. नई दिल्ली-110001 फोन: 011-23310001-05,

इमेल - hcsIndl@yahoo.co.in वेबसाइट - www.fosterengineeringltd.com 40वीं आम वार्षिक बैठक, बुक क्लोजर का नोटिस एवं ई-वोटिंग जानकारी

एतद् द्वारा सुचित किया जाता है कि कंपनी की 40वीं आम वार्षिक बैठक (एजीएम) शुक्रवार, 24 सितंबर, 2021 को प्रातः 11:00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय फ्लैट नं. 702, 7वां फ्लोर, कंचनजंगा बिल्डिंग, 18, नई दिल्ली-110001 में एजीएम बुलाए जाने वाले नोटिस में उल्लिखित व्यवासय के सम्पादन हेतु आयोजित की जाएगी। कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के सेक्शन 108, कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 (नियम) के नियम 20 एवं सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के साथ पठित, जैसा कि आज तक संशोधित किया गया है, कंपनी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग (रिमोट ई-वोटिंग) सुविधा प्रदान कर रही है ताकि वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने वोट डालने में सक्षम हो सकें। तदनुसार, एजीएम की सूचना में दिए गए व्यवसाय की चीजों का नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा प्रदान की गई इलेक्ट्रॉनिक मतदान सविधाओं के माध्यम से लेनदेन किया जा सकता है।

सदस्यों को सुचित किया जाता है कि कंपनी ने एजीएम सुचना और वार्षिक रिपोर्टी का प्रेषण अनुमत मोड से बुधवार, 25 अगस्त, 2021 को पूरा कर लिया है। सदस्यों को आगे सुचित किया जाता है कि (क) रिमोट ई-वोटिंग मेंगलवार, 21 सितंबर 2021 को प्रातः 9:00 बजे शुरू होगी और गुरुवार, 23 सितंबर, 2021 को सायं 5:00 बजे समाप्त होगी ; (ख) गुरुवार, 23 सितंबर, 2021 को सायं 5.00 बजे के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी : (ग) उपरोक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी और उपरोक्त अवधि की समाप्ति पर एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल निष्क्रिय कर दिया जाएगा; (घ) वोटिंग अधिकार (रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ एजीएम में मतदान पेपर के माध्यम से मतदान के लिए) कंपनी के सदस्यों के नाम पर पंजीकत शेयरों के भगतान मुल्य पर कट ऑफ तारीख यानी शुक्रवार, 17 सितंबर, 2021 को माना जाएगा; (च) कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और एजीएम की सूचना प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और कट ऑफ ऑफ यानी शक्रवार. 17 सितंबर 2021, को शेयर धारण करता है, यूजर आईडी और पासवर्ड (नाम, फोलीओ नंबर / डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी, जैसा भी मामला हो और शेयरहोल्डिंग) evoting@nsdl.co.in या info@skylinerta.com पर आरटीए को एक अनुरोध भेजकर प्राप्त कर सकता है। हालांकि, अगर कोई व्यक्ति रिमोट ई-वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है, तो वह अपना वोट डालूने के लिए अपने मौजदा उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपना पासवर्ड भूल गया है, तो वह www.evoting.nsdl.co पर उपलब्ध 'उपयोगकर्ता विवरण / पासवर्ड' विकल्प का उपयोग कर अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकता है या टोल फ्री नंबर 1800-222-990 पर एनएसडीएल से संपर्क कर सकता है ; (छ) मतदान पेपर के माध्यम से मतदान की सुविधा एजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी और एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है. वे एजीएम में मतदान पेपर के माध्यम से अपना अधिकार इस्तेमाल कर पाएंगे; (ज) रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देने का अधिकार इस्तेमाल करने के बाद भी सदस्य एजीएम में भाग ले सकता है लेकिन उसे एजीएम पर फिर से मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी; (झ) व्यक्ति, जिसका नाम कट-ऑफ तिथि तक सदस्यों के रिजस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज है. केवल रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ मतदान पेपर के माध्यम से एजीएम में मतदान की सुविधा का लाभ उठाने के हकदार होगा। व्यक्ति, जो कट ऑफ तारीख के समय सदस्य नहीं है, उसे इस सुचना का केवल सूचना उद्देश्य से लेना चाहिए; (न) एजीएम की सूचना कंपनी की वैबसाइट अर्थात www.fosterengineeringltd.com पर प्रदर्शित की गई है। एजीएम की सूचना एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होगी।

किसी भी प्रश्न के मामले में, आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पुछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका देख सकते हैं या टोल फ्री नंबरः 1800-222-990 पर कॉल कर सकते हैं या मै. पल्लवी म्हात्रे, प्रबंधक, एनएसडीएल को evoting@nsdl.co.in या pallavid@nsdl.co.in पर या टेलीफोन नंबर +91 22 24994545 पर या रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट जैसे, स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली (दूरभाष नंबर +91 11 40450193-97) अनुरोध भेजें। एजीएम की सुचना में निर्धारित प्रस्तावों पर मतदान के परिणाम एजीएम के समापन के

48 घंटों के भीतर घोषित किए जाएंगे। पर्यवेक्षक की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.fosterengineeringltd.com पर और एनएसडीएल की वेबसाइट पर चेयरमैन या उसके द्वारा अधिकृत निदेशक द्वारा परिणाम घोषित करने के तरंत बाद दिए जाएंगे और कलकला स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड को भी परिणाम सचित किया जाएगा। परिणाम पंजीकृत कार्यालय फ्लैट नं. 702, 7वें तल, कंचनजंगा बिल्डिंग, 18,

बाराखंबा रोड, नई दिल्ली-110001 में प्रदर्शित किए जाएंगे।

सेबी (सचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के नियमों के नियम 10 और विनियम 42 के साथ पठित अधिनियम की धारा 91 के अनुसार आगे नोटिस दिया जाता है कि कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण पुस्तकें शनिवार, 18 सितंबर, 2021 से शुक्रवार, 24 सितंबर, 2021 (दोनों दिन सम्मिलित) एजीएम के प्रयोजन के लिए बंद रहेंगी।

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 25 अगस्त 2021

कृते फोस्टर इंजीनियरिंग इंडस्टीज लिमिटिड हस्ता/-

> अरविंद सिंह स्थान : नई दिल्ली प्रबंध निदेशक दिनांक : 25 अगस्त 2021 (DIN: 05254251)

हिंदुस्थान बिजनेस कार्पोरेशन लिमिटिड

CIN: L65993DL1981PLC299385 पंजीकृत कार्यालय : फ्लैट नं. 702, 7वां फ्लोर, कंचनजंगा बिल्डिंग,

18 बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001 फोनः +91 11 23310001-05, ईमेल - hcsIndl@yahoo.co.in वेबसाइट - www.hbcorpltd.com

40वीं आम वार्षिक बैठक, बुक क्लोजर का नोटिस एवं ई-वोटिंग जानकारी एतद द्वारा सचित किया जाता है कि कंपनी की 40वीं आम वार्षिक बैठक (एजीएम) शुक्रवार, 24 सितंबर, 2021 को दोपहर 12:00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय फ्लैट नं. 702, 7वां फ्लोर, कंचनजंगा बिल्डिंग, 18, नई दिल्ली-110001 में एजीएम बुलाए जाने वाले नोटिस में उल्लिखित व्यवासय के सम्पादन हेतु आयोजित की जाएगी। कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के सेक्शन 108, कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 (नियम) के नियम 20 एवं सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के साथ पठित, जैसा कि आज तक संशोधित किया गया है, कंपनी सदस्यों को इलेक्टॉनिक वोटिंग (रिमोट ई-वोटिंग) सविधा प्रदान कर रही है ताकि वे इलेक्टॉनिक रूप से अपने वोट डालने में सक्षम हो सकें। तदनुसार, एजीएम की सूचना में दिए गए व्यवसाय

की चीजों का नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा प्रदान

की गई इलेक्ट्रॉनिक मतदान सुविधाओं के माध्यम से लेनदेन किया जा सकता है। सदस्यों को सुचित किया जाता है कि कंपनी ने एजीएम सुचना और वार्षिक रिपोर्टी का प्रेषण अनुमत मोड से बुधवार, 25 अगस्त, 2021 को पूरा कर लिया है। सदस्यों को आगे सुचित किया जाता है कि (क) रिमोट ई-वोटिंग मेंगलवार, 21 सितंबर, 2021 को प्रातः 9:00 बजे शुरू होगी और गुरुवार, 23 सितंबर, 2021 को सायं 5:00 बजे समाप्त होगी : (ख) गुरुवार, 23 सितंबर, 2021 को सायं 5.00 बजे के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी ; (ग) उपरोक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी और उपरोक्त अवधि की समाप्ति पर एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉडयुल निष्क्रिय कर दिया जाएगा; (घ) वोटिंग अधिकार (रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ एजीएम में मतदान पेपर के माध्यम से मतदान के लिए) कंपनी के सदस्यों के नाम पर पंजीकृत शेयरों के भुगतान मूल्य पर कट ऑफ तारीख यानी शुक्रवार, 17 सितंबर, 2021 को माना जाएगा; (च) कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और एजीएम की सचना प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और कट ऑफ ऑफ यानी शुक्रवार, 17 सितंबर 2021, को शेयर धारण करता है, यूजर आईडी और पासवर्ड (नाम, फोलीओ नंबर / डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी, जैसा भी मामला हो और शेयरहोल्डिंग) evoting@nsdl.co.in या info@skylinerta.com पर आरटीए को एक अनुरोध भेजकर प्राप्त कर सकता है। हालाँकि, अगर कोई व्यक्ति रिमोट ई-वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकत है, तो वह अपना वोट डालने के लिए अपने मौजूदा उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपना पासवर्ड भूल गया है, तो वह www.evoting.nsdl.co पर उपलब्ध 'उपयोगकर्ता विवरण / पासवर्ड' विकल्प का उपयोग कर अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकता है या टोल फ्री नंबर 1800-222-990 पर एनएसडीएल से संपर्क कर सकता है : (छ) मतदान पेपर के माध्यम से मतदान की सुविधा एजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी और एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम में मतदान पेपर के माध्यम से अपना अधिकार इस्तेमाल कर पाएंगे; (ज) रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देने का अधिकार इस्तेमाल करने के बाद भी सदस्य एजीएम में भाग ले सकता है लेकिन उसे एजीएम पर फिर से मतदान करने की अनुमित नहीं दी जाएगी; (झ) व्यक्ति, जिसका नाम कट-ऑफ तिथि तक सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ मतदान पेपर के

वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होंगी। किसी भी प्रश्न के मामले में, आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूर्छ जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका देख सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 1800-222-990 पर कॉल कर सकते हैं या मै. पल्लवी म्हात्रे, प्रबंधक. एनएसडीएल को evoting@nsdl.co.in या pallavid@nsdl.co.in पर या टेलीफोन नंबर +91 22 24994545 पर या रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट जैसे, स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली (दुरभाष नंबर +91 11 40450193-97) अनुरोध भेजें।

माध्यम से एजीएम में मतदान की सविधा का लाभ उठाने के हकदार होगा। व्यक्ति.

जो कट ऑफ तारीख के समय सदस्य नहीं है, उसे इस सचना का केवल सचना

उद्देश्य से लेना चाहिए; (न) एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.

hbcorpltd.com पर प्रदर्शित की गई है। एजीएम की सूचना एनएसडीएल की

एजीएम की सूचना में निर्धारित प्रस्तावों पर मतदान के परिणाम एजीएम के समापन के 48 घंटों के भीतर घोषित किए जाएंगे। पर्यवेक्षक की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.hbcorpitd.com पर और एनएसडीएल की वेबसाइट पर चेयरमैन या उसके द्वारा अधिकृत निदेशक द्वारा परिणाम घोषित करने के तरंत बाद दिए जाएंगे और कलकत्ता स्टाँक एक्सचेंज लिमिटेड को भी परिणाम सचित किया जाएगा।

परिणाम पंजीकृत कार्यालय फ्लैट नं. 702, 7वें तल, कंचनजंगा बिल्डिंग, 18, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली-110001 में प्रदर्शित किए जाएंगे।

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के नियमों के नियम 10 और विनियम 42 के साथ पठित अधिनियम की धारा 91 के अनुसार आगे नोटिस दिया जाता है कि कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण पुस्तकें शनिवार, 18 सितंबर, 2021 से शुक्रवार, 24 सितंबर, 2021 (दोनों दिन सम्मिलित) एजीएम के प्रयोजन के लिए बंद रहेंगी।

कृते हिंदुस्थान बिजनेस कार्पोरेशन लिमिटिड

नीरज जैन निदेशक (DIN: 02726637)

स्थानः नई दिल्ली

www.readwhere.com

तिथि: 25.8.2021

:iii. किसी प्रकार की पूछताछ के लिए www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड खंड में उपलब्ध

निदेशक मंडल के आदेश से

स्थान : नई दिल्ली तिथि : 25.08.2021 (कम्पनी सचिव